



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 25—दिसम्बर 31, 2010 (पौष 4, 1932)
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 25—DECEMBER 31, 2010 (PAUSA 4, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

विषय-सूची	पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	1889	प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1181	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2403	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	3535
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	9121
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1781
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1889	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1181	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2403	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3535
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	9121
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1781
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

सं. यू-13019/3/2010-एएनएल--संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति के गठन से संबंधित इस मंत्रालय की दिनांक 4 जून, 2010 की अधिसूचना सं. यू-13019/5/2010-एएनएल में निम्नलिखित संशोधन/परिवर्धन किए जाते हैं :-

- (i) पैरा 2 के मौजूदा उप-पैरा (घ) को उप-पैरा (ङ) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाता है।
- (ii) पैरा 2 के उप-पैरा (घ) के रूप में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाता है:
(घ) "जिला पंचायत से पांच सदस्य, लोक सभा-सदस्य को छोड़कर, जिन्हें जिला पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।"
- (iii) पैरा 3 में:
(क) पंक्ति 1 में, मौजूदा "2(क) से (ग) तक" शब्दों के स्थान पर "2 (क) से (घ) तक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाते हैं; और
(ख) पंक्ति 2 में मौजूदा "2 (घ)" शब्दों के स्थान पर "2(ङ)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाते हैं।
(iv) मौजूदा पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है:
"6 पैरा 2 के उप-पैरा (घ) और (ङ) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।"

एम.एल. वर्मा
उप सचिव

दिनांक 8 दिसम्बर 2010

सं. यू-13019/3/2010-एएनएल--गृह मंत्रालय की दिनांक 07 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. यू-13019/3/2010-एएनएल द्वारा यथा संशोधित गृह मंत्रालय की दिनांक 4 जून, 2010 की अधिसूचना सं. यू-13019/5/2010-एएनएल के पैरा 2(घ) के अनुसार केन्द्रीय गृह

मंत्री ने निम्नलिखित व्यक्तियों को लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया है:-

- (i) श्री पोन्नीकम शैकोया, जिला पंचायत सदस्य, अमिनी।
- (ii) श्रीमती उमईबन, जिला पंचायत सदस्य, कावरती
- (iii) श्रीमती के. के. कदिजोम्माबी, जिला पंचायत सदस्य, चेटलट।
- (iv) श्री अब्दुल हयात, जिला पंचायत सदस्य, कदमथ।
- (v) श्री टी. एम. मुथुकोया, जिला पंचायत सदस्य, अंद्रोथ।

एम.एल. वर्मा
उप सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2010

सं. 5/8/2008-चमड़ा-केन्द्र सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय याजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) के तहत एक उप-योजना "मिशन मोड" अनुमोदित की है।

2. मिशन मोड उप-योजना का उद्देश्य निम्नानुसार है:-

- भारत को विदेशी बाजारों में निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/संयुक्त उद्यम को आकर्षित करने के लिए भारत की विनिर्माण क्षमता, आर्थिक वृद्धि और भारतीय चमड़ा उद्योग की अवसर संभावना के बारे में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जागरूकता पैदा करना।
- चमड़ा क्षेत्र के अनुसंधान एवं अध्ययन के जरिए भविष्य की परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन, विकास और प्रतिपादन में मौजूदा समस्याओं का विश्लेषण।
- आईएलडीपी के तहत विभिन्न उप-योजनाओं के मूल्यांकन हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्ति।
- चमड़ा उद्योग से संबंधित विषयों व शीर्षकों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, मेलों (घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय दोनों) तथा सेमिनारों का आयोजन।

3. योजना के दिशा-निर्देश विभाग की वेबसाइट (www.dipp.nic.in/schemes-dipp.htm) पर उपलब्ध है।

बेनेडिक्ट एक्का
अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 2010

संकल्प

सं. ई-11015/8/2008-हिन्दी--इस मंत्रालय के दिनांक 04.06.2010 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पी.सी. मोहन, संसद सदस्य (लोक सभा) को श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया संसद सदस्य (लोक सभा) के स्थान पर इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गैर-सरकारी सदस्य नियुक्त किया जाता है। श्री पी.सी. मोहन का कार्यकाल वर्तमान समिति के कार्यकाल तक रहेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, समिति के सभी सदस्यों और सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रशासनों को भेजी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

शेष कुमार पुलिपाका
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2010

सं. एफ-9-2/2010-बीटीआई--संस्कृति मंत्रालय ने 10 नवम्बर, 2010 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत अरूणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग ज़िले के दहूंगा में 'केन्द्रीय हिमायली संस्कृति अध्ययन संस्थान' स्थापित किया है।

2 उपर्युक्त सोसायटी बौद्ध और हिमालयी अध्ययनों में अवर स्नातक, स्नातकोत्तर व डॉक्टरल कार्यक्रम शुरू करेगी और यह फीडर स्कूलों की स्थापना और उनका अनुरक्षण भी कर सकती है। अन्य बातों के साथ-साथ सोसायटी के उद्देश्य इस प्रकार हैं:--

- (ii) भारतीय संस्कृति में विभिन्न पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और बौद्ध दर्शन व सांस्कृतिक अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में अध्ययन और अनुसंधान संचालित करने की व्यवस्था करना।
- (ii) आधुनिक अनुसंधान कार्यविधि तथा उच्च स्तरीय अद्यतन प्रौद्योगिकी के श्रान का इस्तेमाल करके शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों के साथ बौद्ध अध्ययनों, भोटी भाषा एवं साहित्य और हिमालयी अध्ययनों के क्षेत्रों में उच्च शिक्षण व अनुसंधान हेतु विद्यार्थियों को तैयार करना।
- (iii) हिमालय क्षेत्र और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में सांस्कृतिक लोकाचारों, पारिस्थितिकी संतुलन तथा प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- (iv) आर्थिक आत्म-निर्भरता, सतत् विकास व राष्ट्रीय अखण्डता के ढांचे के भीतर नृजातीय पहचान के परिरक्षण को सुकर बनाने के लिए पारंपरिक कलाओं एवं शिल्पों तथा आधुनिक तकनीकी कौशल के सेटों की शिक्षा देना।

3. सोसायटी, गवर्नरों के ऐसे बोर्ड के माध्यम से कार्य करेगी जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, बौद्ध विद्वानों आदि सहित व्यापक प्रतिनिधित्व प्राप्त ढांचा होगा।

सचिव (संस्कृति) उक्त सोसायटी के अध्यक्ष (पदेन) होंगे तथा संस्कृति मंत्रालय में बौद्ध शिक्षण संस्थानों का कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव गवर्नरों के बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

टी. कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 7th December 2010

No. U-13019/3/2010-ANL—Following amendments/additions are made in this Ministry's Notification No. U-13019/5/2010-ANL dated the 4th June, 2010 regarding constitution of Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Lakshadweep :—

- (i) Existing sub-para (d) of Para 2 is re-numbered as sub-para (e).
- (ii) Following is inserted as sub-para (d) of Para 2 :—
“(d) Five Members from the District Panchayat, excluding the Members of the Lok Sabha, to be elected by all the Members of the District Panchayat.”
- (iii) In Para 3 :—
(a) in line 1, existing words “2 (a) to (c)” are substituted by “2 (a) to (d)”; and
(b) in line 2, existing words “2 (d)” are substituted by words “2 (e)”.
- (iv) Existing para 6 is substituted as under :—
“6. The term of Members referred to in sub-paras (d) and (e) of Para 2 shall be two years.”

M. L. VARMA
Dy. Secy.

The 8th December 2010

No. U-13019/3/2010-ANL—In terms of the Para 2(d) of the Ministry of Home Affairs' Notification No. U-13019/5/2010-ANL dated the 4th June, 2010 as amended vide Ministry of Home Affairs' Notification No. U-13019/3/2010-ANL dated the 7th December, 2010, the Union Home Minister has nominated the following as Members of the Home Minister's Advisory Committee for the Union Territory of Lakshadweep :—

- (i) Shri Ponnikam Shaikoya, DP Member, Amini.
- (ii) Smt. Umaiban, DP Member, Kavaratti.
- (iii) Smt. K. K. Kadeejommabi, DP Member, Chetlat.
- (iv) Shri Abdul Hayath, DP Member, Kadmat.
- (v) Shri T. M. Muthukoya, DP Member, Andrott.

M. L. VARMA
Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND
PROMOTION)

New Delhi, the 9th December 2010

No. 5/8/2008-Leather—The Central Government has approved a sub-scheme, “Mission Mode”, under the Indian

Leather Development Programme (ILDP) for implementation during the 11th Five Year Plan period.

2. The aims of the Mission Mode sub-scheme are as under :—

- To create awareness in the International Markets about India's manufacturing capabilities, economic growth and opportunity potential of the Indian Leather Industry for attracting Foreign Direct Investment/Joint Venture/presenting India as an investment destination in the foreign markets.
- Analysis of existing problems in implementation, development and formulation of projects/schemes for the future by way of research and study of the leather sector.
- Appointment of Consultants for evaluation of the various sub-scheme under ILDP.
- Holding international conferences, fairs (both domestic and international) and seminars in India on topics and themes of interest to the leather industry.

3. The guidelines of the scheme are available on the website of the Department (www.dipp.nic.in/schemes-dipp.htm).

BENEDICT EKKA
Under Secy.

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM
ENTERPRISES

New Delhi, the 6th December 2010

RESOLUTION

No. E. 11015/8/2008-Hindi—In partial modification of this Ministry's resolution of even number dated 04.06.2010 Shri P. C. Mohan M.P. (Lok Sabha) is nominated as non-official member of the Hindi Advisory Committee of this Ministry in place of Smt. Yasodhara Raje Scindia, M.P. (Lok Sabha). The tenure of Shri P. C. Mohan would be till the tenure of the present committee.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the President's Secretariat, the Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission, all the Ministries and Departments of the Government of India, Office of the Comptroller and Auditor General of India, all the Members of the Samiti and all State Governments and Union Territory Administrations.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SESH KUMAR PULIPAKA
Jt. Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 2nd December 2010

No. F 9-2/2010-BTI—The Ministry of Culture has established “Central Institute of Himalayan Culture Studies” at Dahung in West Kameng District of Arunachal Pradesh under the Societies Registration Act, 1860 on 10th November, 2010.

2. The Society shall undertake Under Graduate, Post Graduate and Doctoral Programmes in Buddhist and Himalayan Studies and may also establish and maintain feeder Schools. The objectives of the Society, inter alia, are :—

- (i) To provide for instruction for various courses in Indian Culture and for study and research in different branches of Buddhist Philosophical and Cultural Studies,
- (ii) To prepare students for higher learning and research in the fields of Buddhist Studies, Bhoti language and literature and Himalayan Studies with pedagogic methods using knowledge of modern research methodology and advanced up-to-date technology,

- (iii) To inculcate awareness of the Cultural ethos, ecological balance and preservation of natural resources with special reference to the Himalayan region and North East region of India,
- (iv) To teach traditional arts and crafts and modern technical skill sets for facilitating economic self-sufficiency and sustainable development and preservation of ethnic identity within the framework of national unity.

3. The Society will function through the Board of Governors which will have broad based representation including representatives of the Central Government, State Government, Buddhist Scholars, etc.

4. The Secretary (Culture) shall be the President (ex-officio) of the Society and the Joint Secretary dealing with Buddhist Teaching Institutions in the Ministry of Culture will be the Chairperson of the Board of Governors.

T. KUMAR
Jt. Secy.